

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 428
जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।
14 माघ, 1942 (शक)

सॉफ्टवेयर संबंधी राष्ट्रीय नीति

428. श्रीमती रीति पाठक :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की सॉफ्टवेयरों के उत्पादन के लिए कोई नीति है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों के आधार डेटा प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों के आधार अभी तक नहीं बने हैं;
- (घ) क्या सरकार की डिजिटल इंडिया के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) : सरकार ने एक मजबूत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से 28 फरवरी 2019 को- 2019 को मंजूरी दे दी है।

(ग) : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार, 15 जनवरी, 2021 तक कुल 127.83 करोड़ आधार को तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, 15 जनवरी, 2021 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आधार संतृप्ति **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है।

(घ-ङ.) : डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने कई नीतियों और पहलों को मंजूरी दी है। इनमें राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019, संपर्क डेटाबेस (आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मासेज) के लिए अद्यतन और उपयोग नीति, भारत सरकार के लिए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के अंगीकार नीति आदि हैं। प्रमुख नीतियों पर संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति, ताकि अभिनव और कुशल सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास, उत्पादन और आपूर्ति में भारत को एक वैश्विक प्लेयर के रूप में बनाया जा सके, इस प्रकार आईसीटी के पूरे स्पेक्ट्रम में वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 भारत और दुनिया के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पर केंद्रित है।
- संपर्क डेटाबेस (आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मासेज) के लिए अद्यतन और उपयोग नीति नागरिकों के लिए त्वरित तरीके से और बड़े स्तर पर संचार की ओर है।
- भारत सरकार के लिए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने पर नीति सरकारी अनुप्रयोगों पर रणनीतिक नियंत्रण रखने के लिए है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश आधार संतृप्ति
15-जनवरी -21 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या (परियोजनाएं 2020)	आधार की संख्या सौंपी गई (लाइव)	% संतृप्ति (लाइव)
1	अंडमान और निकोबर द्वीप	4,17,036	3,85,952	92.55%
2	आंध्र प्रदेश	5,39,03,393	4,91,32,435	91.15%
3	अरुणाचल प्रदेश	15,70,458	12,31,987	78.45%
4	असम	3,56,07,039	1,63,46,888	45.91%
5	बिहार	12,47,99,926	10,38,90,930	83.25%
6	चंडीगढ़	11,58,473	11,31,690	97.69%
7	छत्तीसगढ़	2,94,36,231	2,75,31,203	93.53%
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6,15,724	5,92,129	96.17%
9	दिल्ली	1,87,10,922	2,18,69,477	116.88%
10	गोवा	15,86,250	15,88,164	100.12%
11	गुजरात	6,38,72,399	6,28,04,933	98.33%
12	हरियाणा	2,82,04,692	2,92,83,283	103.82%
13	हिमाचल प्रदेश	74,51,955	75,94,213	101.91%
14	जम्मू कश्मीर	1,36,06,320	1,08,47,433	79.72%
15	झारखंड	3,85,93,948	3,47,11,587	89.94%
16	कर्नाटक	6,75,62,686	6,28,03,362	92.96%
17	केरल	3,56,99,443	3,65,43,877	102.37%
18	लद्दाख	2,89,023	2,21,953	76.79%
19	लक्षद्वीप	73,183	71,459	97.65%
20	मध्य प्रदेश	8,53,58,965	7,52,74,294	88.19%
21	महाराष्ट्र	12,31,44,223	11,47,21,402	93.16%
22	मणिपुर	30,91,545	25,36,062	82.03%
23	मेघालय	33,66,710	13,78,873	40.96%
24	मिजोरम	12,39,244	11,24,148	90.71%
25	नागालैंड	22,49,695	12,77,018	56.76%
26	ओडिशा	4,63,56,334	4,28,62,888	92.46%
27	पुडुचेरी	14,13,542	12,82,949	90.76%
28	पंजाब	3,01,41,373	3,04,41,473	101.00%
29	राजस्थान	8,10,32,689	7,08,00,595	87.37%
30	सिक्किम	6,90,251	5,75,601	83.39%
31	तमिलनाडु	7,78,41,267	7,25,24,183	93.17%
32	तेलंगाना	3,85,10,982	3,95,44,046	102.68%
33	त्रिपुरा	41,69,794	36,92,010	88.54%
34	उत्तर प्रदेश	23,78,82,725	20,53,61,915	86.33%
35	उत्तराखंड	1,12,50,858	1,11,32,842	98.95%
36	पश्चिम बंगाल	9,96,09,303	9,18,76,566	92.24%
	कुल	1,37,05,08,600	1,23,49,89,817	90.11%
